



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 362]
No. 362]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 1982/श्रावण 26, 1904
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 1982/SRAVANA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 9 अगस्त 1982

क्र।० आ० 594 (अ) 1-भूमिगत रेल (सकम निमाण) अधिनियम,
1978 की धारा 21(1)(ख) के अंतर्गत अधिसूचनाएं।

यत केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसा करना आवश्यक है कि कलकत्ता में भूमिगत (मेट्रो) रेलवे के निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित सभी इमारतों का, जो भूमिगत संरक्षण के ऊपर भवनों उसके किसी भी तरफ 20 मीटर के भीतर स्थित हो अस्थायी रूप से खाली कराने का निवेश दिया जाय, अत एव द्वारा यह निवेश दिया जाता है कि नीचे दी गयी अनुसूची में निर्दिष्ट परिसरों में रहने वाले व्यक्ति अपने परिवार और आश्रितों सहित जो इन परिसरों में रह रहे हों, साथ ही यदि कोई चल सम्पत्ति भवनों पर, जो उनकी अभिरक्षा, नियंत्रण या कब्जे में हो तो उसके सहित, उक्त इमारत को खाली कर वे।

प्रभावित व्यक्तियों को ऐसा अस्थायी वैकल्पिक स्थान, जिसे केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे, निशुल्क उपलब्ध कराने की अपेक्षा एक ऐसी धनराशि का, जो सरकार की राय में वैकल्पिक स्थान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को कार्यकारी इंजीनियर सी एस-4, भूमिगत रेलवे से जो इस प्रयोजन के लिए महाप्रबन्धक, भूमिगत रेलवे के प्राधिकृत प्रतिनिधि है, सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर यह निष्क्रमण कर देना चाहिए--

- (क) भूमिगत रेलवे कलकत्ता से अस्थायी तौर पर कोई निर्दिष्ट अस्थायी वैकल्पिक स्थान निशुल्क ग्रहण करने के लिए, अपेक्षा
- (ख) अस्थायी वैकल्पिक स्थान खरीदने के लिए भूमिगत रेलवे कलकत्ता से निर्दिष्ट धनराशि, जो केन्द्रीय सरकार की राय में पर्याप्त हो प्राप्त करने के लिए अपने आप को पेश करने के लिए।

अनुसूची

क्रमांक	परिसर सं०	प्रभावित व्यक्तियों का नाम	निर्देशन
22.	107/3 बैलगछिया रोड, कलकत्ता	1. श्रीमती रेणु-बाला राय 2. श्री वयाल बनर्जी 3. श्री बलाई चक्रवर्ती 4. श्री हरि सेठ	प्रत्येक मामले में निष्क्रमण (खाली करने) की वास्तविक तारीख से लगभग 6 महीने की अवधि के लिए सभी चल संपत्ति और/अथवा सभी पशुओं सहित सभी व्यक्तियों का ऊपर बताये अनुसार निष्क्रमण ।

[फाइल सं० 81/एम. टी. पी/सी/एस. ए. /103]

हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड,
पदेन संयुक्त सचिव भारत सरकार, रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1982

S.O. 594(E).—Notifications under Section 21(1)(b) of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

Whereas the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to direct temporary evacuation of all building, described in the schedule below which are above or within 20 metres on either side of the metro alignment, it is hereby directed that the persons living in the premises mentioned in schedule below along with their family and dependents, as residing in these premises, together with any moveable property or animal that may be in their custody, control, or possession shall evacuate the said building.

Arrangement has been made to provide the affected persons with such temporary alternative accommodation, free of cost, as considered suitable by the Central Government or to pay an amount which in its opinion is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation.

Such evacuation shall be done by every affected person within thirty days from the date of receipt of intimation sent to him by the Executive Engineer CS-4, Metro Railway, who is the authorised representative of the General Manager, Metro Railway for this purpose—

- for taking over temporarily a specific temporary alternative accommodation free of cost from the Metro Railway, Calcutta, or
- for presenting himself to receive from the Metro Railway, Calcutta, a specific amount, which in the opinion of Central Government is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation.

SCHEDULE

Building/Premises No.	Name of the affected persons	Directions
22. 107/3, Belgachia Road, Calcutta.	1. Smt. Renu Bala Roy 2. Sri Dayal Banerjee 3. Sri Balaji Chakraborty 4. Sri Hari Sethe.	Evacuation of all persons together with any moveable property and/or any animal as described above for a period of six months approximately from the actual date of evacuation in each individual case

[Case No. 81/MTP/C/LA/103]
HIMMAT SINGH, Secy. Railway Board.
Ex-officio Joint Secretary to
the Government of India,
Ministry of Railways.